



What happens if someone in my family can't make decisions because of disability, illness or injury?

यदि मेरे परिवार का कोई सदस्य विकलांगता, बीमारी या चोट लगने के फलस्वरूप फैसले नहीं ले सकता है, तो क्या होता है?

वयस्कों को अपने जीवन से सम्बन्धित अपने खुद के फैसले लेने का अधिकार है।

परन्तु कभी-कभी विकलांगता, बीमारी या चोट के कारण वयस्क फैसले नहीं ले सकते हैं। उदाहरणतः, गंभीर डिमेंशिया (मनोभ्रंश रोग)।

यदि वयस्क, भविष्य में, अपने खुद के फैसले नहीं ले सकते हैं, तो वे अपने लिए फैसले लेने के लिए किसी व्यक्ति का चयन कर सकते हैं।



वे एक विशेष फॉर्म भरकर ऐसा करते हैं, इस फॉर्म को 'enduring power of attorney' कहा जाता है।

यदि आप यह नहीं कर सकते/सकती हैं और विकलांगता, बीमारी या चोट लगने के कारण फैसले नहीं ले सकते/सकती हैं तो ट्रिब्यूनल सहायता कर सकता है। यह ट्रिब्यूनल 'Victorian Civil and Administrative Tribunal (VCAT)' के नाम से जाना जाता है।

VCAT किसी व्यक्ति के धन और संपत्ति से सम्बन्धित फैसले लेने के लिए किसी अन्य व्यक्ति का चयन कर सकता है (इस अन्य व्यक्ति को 'administrator (प्रबंधक)' कहते हैं)।

VCAT किसी व्यक्ति की जीवन-शैली से सम्बन्धित फैसले लेने के लिए किसी अन्य व्यक्ति का चयन कर सकता है (इस अन्य व्यक्ति को 'guardian (संरक्षक)' कहते हैं)।

उदाहरणतः, यह फैसला इस सम्बन्ध में हो सकता है कि व्यक्ति कहाँ रहता है या उसे किस प्रकार की सेवाओं की ज़रूरत है, जैसे कि घर में सहायता।



चिकित्सीय उपचार से सम्बन्धित फैसले

कानून में यह बताया गया है कि कौन सा व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के चिकित्सीय उपचार से सम्बन्धित फैसला ले सकता है (यदि वह व्यक्ति खुद अपने फैसले न ले सकता हो)। उदाहरणतः, यह उस व्यक्ति का पति या पत्नी, या कोई वयस्क बच्चा हो सकता है।



यदि आपके कोई सवाल हैं तो

आप परामर्श लेने के लिए Office of the Public Advocate (लोक पक्षसमर्थक कार्यालय) को 1300 309 337 पर फोन कर सकते/सकती हैं या www.publicadvocate.vic.gov.au देखें।



आप टेलीफोन दुभाषिए के लिए निवेदन कर सकते/सकती हैं।